



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY  
साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 50| नई दिल्ली, दिसम्बर 7—दिसम्बर 13, 2008, शनिवार/अग्रहायण 16—अग्रहायण 22, 1930  
No. 50| NEW DELHI, DECEMBER 7—DECEMBER 13, 2008, SATURDAY/AGRAHAYANA 16—AGRAHAYANA 22, 1930

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके  
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authority (other than the Administrations of Union Territories)

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)  
(केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड)

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 212.—भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, जिसे भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 31 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 12 अप्रैल, 2008 में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) (केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 62, तारीख 10 अप्रैल, 2008 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें ऐसे उन व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 5 जून, 2008 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट संशोधनों की बाबत विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बॉयलर विनियम, 1950 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय बॉयलर (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 47 में, खंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—  
“(iv) डिजाइन, धातु, तापमान निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होंगे :—

क्र. सं.	श्रेणी	तापमान	
(1)	(2)	(3)	
		(°सेंटीग्रेड)	(°फारेनहाइट)
1	टी 1, टी 2	538	1000
2	टी 5, टी 9, टी 11, टी 22, टी 91, 12 XI एमओ, X 20सी आरएमओवी 121	649	1200
3	टीपी 304, टीपी 304 एच, टीपी 310 एस, टीपी 316, टीपी 316एच, टीपी 321, टीपी 321 एच, टीपी 347, टीपी 347एच	816	1500
4	टीपी 304एल, टीपी 316एल	427	800 I”

[फा. सं. 20(26)/2006-बॉयलर्स]

एस. के. जैन, सचिव

**टिप्पण :** मूल विनियम, भारत के राजपत्र में का.आ. 600 तारीख 15 सितम्बर, 1950 द्वारा प्रकाशित किए थे और पश्चात्पूर्वी संशोधन निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा किए गए :—

- (i) सा.का.नि. 178, तारीख 24 मार्च, 1990;
- (ii) सा.का.नि. 179, तारीख 24 मार्च, 1990;
- (iii) सा.का.नि. 488, तारीख 9 अक्टूबर, 1993;
- (iv) सा.का.नि. 516, तारीख 23 अक्टूबर, 1993;
- (v) सा.का.नि. 634, तारीख 25 दिसम्बर, 1993;
- (vi) सा.का.नि. 107, तारीख 26 फरवरी, 1994; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 223 तारीख 14 मई, 1994
- (vii) सा.का.नि. 250, तारीख 4 जून, 1994;
- (viii) सा.का.नि. 402, तारीख 13 अगस्त, 1994;
- (ix) सा.का.नि. 427, तारीख 20 अगस्त, 1994;
- (x) सा.का.नि. 562, तारीख 12 नवम्बर, 1994;
- (xi) सा.का.नि. 607, तारीख 10 दिसम्बर, 1994;
- (xii) सा.का.नि. 83, तारीख 25 फरवरी, 1995;
- (xiii) सा.का.नि. 93, तारीख 4 मार्च, 1995;
- (xiv) सा.का.नि. 488, तारीख 9 नवम्बर, 1996;
- (xv) सा.का.नि. 582, तारीख 28 दिसम्बर, 1996;
- (xvi) सा.का.नि. 59, तारीख 25 जनवरी, 1997;
- (xvii) सा.का.नि. 117, तारीख 1 मार्च, 1997;

- (xviii) सा.का.नि. 172, तारीख 29 मार्च, 1997;
- (xix) सा.का.नि. 221, तारीख 21 नवम्बर, 1998;
- (xx) सा.का.नि. 131, तारीख 1 मई, 1999;
- (xxi) सा.का.नि. 139, तारीख 8 मई, 1999; शुद्धिपत्र सा.का.नि. 201 तारीख 7 अप्रैल, 2001 ।
- (xxii) सा.का.नि. 237, तारीख 31 जुलाई, 1999;
- (xxiii) सा.का.नि. 345, तारीख 23 अक्टूबर, 1999;
- (xxiv) सा.का.नि. 397, तारीख 14 अक्टूबर, 2000;
- (xxv) सा.का.नि. 219, तारीख 14 अप्रैल, 2001;
- (xxvi) सा.का.नि. 496, तारीख 8 सितम्बर, 2001;
- (xxvii) सा.का.नि. 672, तारीख 15 दिसम्बर, 2001;
- (xxviii) सा.का.नि. 127, तारीख 13 अप्रैल, 2002;
- (xxix) सा.का.नि. 407, तारीख 22 नवम्बर, 2003;
- (xxx) सा.का.नि. 201, तारीख 19 जून, 2004;
- (xxxi) सा.का.नि. 203, तारीख 19 जून, 2004;
- (xxxii) सा.का.नि. 265, तारीख 7 अगस्त, 2004;
- (xxxiii) सा.का.नि. 32, तारीख 29 जनवरी, 2005;
- (xxxiv) सा.का.नि. 66, तारीख 26 फरवरी, 2005;
- (xxxv) सा.का.नि. 67, तारीख 26 फरवरी, 2005;
- (xxxvi) सा.का.नि. 423, तारीख 24 दिसम्बर, 2005;
- (xxxvii) सा.का.नि. 27, तारीख 4 फरवरी, 2006;
- (xxxviii) सा.का.नि. 201, तारीख 12 अगस्त, 2006;
- (xxxix) सा.का.नि. 280, तारीख 18 नवम्बर, 2006;
- (xxxx) सा.का.नि. 216, तारीख 17 मार्च, 2007;
- (xxxxi) सा.का.नि. 123, तारीख 27 जून, 2008 ।

# **MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**

**(Department of Industrial Policy and Promotion)**

**(Central Boilers Board)**

New Delhi, the 4th December, 2008

**G. S. R. 212.**—Whereas, certain draft regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950 were published, as required by sub-section (1) of Section 31 of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), in Part-II, Section 3, sub-section (i) of the Gazette of India dated the 12th day of April, 2008, vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) (Central Boilers Board), number G.S.R. 62, dated the 10th day of April, 2008 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 5th June, 2008;

And whereas, no objections or suggestions have been received within the specified period in respect of the amendments contained in this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 28 of the Indian Boilers Act, 1923, the Central Boilers Board hereby makes the following regulations further to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, namely :—

1. (1) These regulations may be called the Indian Boiler (Second Amendment) Regulations, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 47, for clause (iv), the following shall be substituted, namely :—

“(iv) The design metal temperatures shall not exceed the following limits :—

Sl. No.	Grade	Temperature	
		°C	°F
1	2	3	
1.	T1, T2	538	1000
2.	T5, T9, T11, T12, T22, T91, I2X1Mo, X20CrMoV121	649	1200
3.	TP304, TP304H, TP310S, TP316, TP316H, TP321, TP321H, TP347, TP347H	816	1500
4.	TP304L, TP316L	427	800.”

[F. No. 20(26)/2006-Boilers]

S. K. JAIN, Secy.

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, vide number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and subsequently amended *vide* the following notifications, namely :—

- (i) G.S.R. 178, dated the 24th March, 1990;
- (ii) G.S.R. 179, dated the 24th March, 1990;
- (iii) G.S.R. 488, dated the 9th October, 1993;
- (iv) G.S.R. 516, dated the 23rd October, 1993;
- (v) G.S.R. 634, dated the 25th December, 1993;
- (vi) G.S.R. 107, dated the 26th February, 1994; Errata G.S.R. 223, dated the 14th May, 1994;
- (vii) G.S.R. 250, dated the 4th June, 1994;
- (viii) G.S.R. 402, dated the 13th August, 1994;
- (ix) G.S.R. 427, dated the 20th August, 1994;
- (x) G.S.R. 562, dated the 12th November, 1994;
- (xi) G.S.R. 607, dated the 10th December, 1994;
- (xii) G.S.R. 83, dated the 25th February, 1995;
- (xiii) G.S.R. 93, dated the 4th March, 1995;
- (xiv) G.S.R. 488, dated the 9th November, 1996;
- (xv) G.S.R. 582, dated the 28th December, 1996;
- (xvi) G.S.R. 59, dated the 25th January, 1997;
- (xvii) G.S.R. 117, dated the 1st March, 1997;
- (xviii) G.S.R. 172, dated the 29th March, 1997;

- (xix) G.S.R. 221, dated the 21st November, 1998;
- (xx) G.S.R. 131, dated the 1st May, 1999;
- (xxi) G.S.R. 139, dated the 8th May, 1999; Errata G.S.R. 201, dated the 7th April, 2001;
- (xxii) G.S.R. 237, dated the 31st July, 1999;
- (xxiii) G.S.R. 345, dated the 23rd October, 1999;
- (xxiv) G.S.R. 397, dated the 14th October, 2000;
- (xxv) G.S.R. 219, dated the 14th April, 2001;
- (xxvi) G.S.R. 496, dated the 8th September, 2001;
- (xxvii) G.S.R. 672, dated the 15th December, 2001;
- (xxviii) G.S.R. 127, dated the 13th April, 2002;
- (xxix) G.S.R. 407, dated the 22nd November, 2003;
- (xxx) G.S.R. 201, dated the 19th June, 2004;
- (xxxi) G.S.R. 203, dated the 19th June, 2004;
- (xxxii) G.S.R. 265, dated the 7th August, 2004;
- (xxxiii) G.S.R. 32, dated the 29th January, 2005;
- (xxxiv) G.S.R. 66, dated the 26th February, 2005;
- (xxxv) G.S.R. 67, dated the 26th February, 2005;
- (xxxvi) G.S.R. 423, dated the 24th December, 2005;
- (xxxvii) G.S.R. 27, dated the 4th February, 2006;
- (xxxviii) G.S.R. 201, dated the 12th August, 2006;
- (xxxix) G.S.R. 280, dated the 18th November, 2006;
- (xxxx) G.S.R. 216, dated the 17th March, 2007;
- (xxxxi) G.S.R. 123, dated the 27th day of June, 2008.

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 213.—केन्द्रीय सरकार, भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 27क, की उपधारा(2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के साथ पठित धारा 28क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2003 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड (सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2008 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं— इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा परिभाषित न हो—  
(क) "अधिनियम" से भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) अभिप्रेत है;  
(ख) "बोर्ड" से अधिनियम की धारा 27क के अधीन गठित केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड अभिप्रेत है;  
(ग) "तकनीकी सलाहकार" से अधिनियम की धारा 4क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त तकनीकी सलाहकार अभिप्रेत है;  
(घ) "सदस्य" से बोर्ड का सदस्य अभिप्रेत है;

3. पदेन अध्यक्ष-भारत सरकार का सचिव, जो केन्द्रीय सरकार के विभाग का भारसाधक है, जिसके पास बोर्ड का प्रशासनिक नियंत्रण है, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (क) के अनुसार पदेन अध्यक्ष होगा।

4. पदेन सदस्य सचिव-तकनीकी सलाहकार, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (घ) के अनुसार सदस्य सचिव होगा।

5. अन्य सदस्यों के नामनिर्देशन की रीति-(i) ज्येष्ठ तकनीकी अधिकारी जो बॉयलरों के निरीक्षण और परीक्षा से अवगत हो जिससे प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा (संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न) अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ख) के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ii) ऊपर उपनियम (i) में नामनिर्दिष्ट समान संख्या में अन्य सदस्य जो 28 से अधिक नहीं होंगे, अधिनियम की धारा 27क की उपधारा (2) के खंड (ग) के अनुसार निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :-

- (क) भारी उद्योग विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ख) इस्पात विभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे इस्पात मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (घ) श्रम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ङ.) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे उस मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (च) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे विद्युत मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (छ) भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे ब्यूरो के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (ज) संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य जिसे गृह मंत्रालय के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाए ;
- (झ) कानफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री या फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री या एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया से एक सदस्य ;
- (ञ) बॉयलर मैनुफैक्चर एसोसिएशन से एक सदस्य ;
- (ट) बॉयलर कंपोनेंट मेन्यूफैक्चरर एसोसिएशन से एक सदस्य ;
- (ठ) बॉयलर और बॉयलर कंपोनेंट मेन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ;
- (ड) राष्ट्रीय प्रयोगशाला का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य ;
- (ढ) इंजिनियरी परामर्शी संगठन/निरीक्षण अभिकरण का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो सदस्य ;
- (ण) बॉयलर यूजर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए चार सदस्य ; और
- (त) किसी अन्य हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए पांच से अनधिक सदस्य जो केन्द्रीय सरकार की राय में जिनका बोर्ड पर प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

6. नाम निर्देशित सदस्यों की पदावधि-(1) नियम 5 के अधीन नामनिर्देशित प्रत्येक सदस्य राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से सन्मान्यतया तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड के परामर्श के लिए तब तक पद धारण करेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा निदेश न दिया जाए।

(2) नामनिर्देशित सदस्य, बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र संबोधन करके अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

[फा. सं. 6 (6)/2008-बॉयलर्स]

गोपाल कृष्णा, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 5th December, 2008

**G. S. R. 213.**— In exercise of the powers conferred by Section 28A read with clause (a), (b), (c) and (d) of sub-section 2 of Section 27A of the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923), and in supersession of the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Central Boilers Board (Nomination of Members) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Indian Boilers Act, 1923 (5 of 1923);

(b) "Board" means the Central Boilers Board constituted under Section 27A of the Act;

(c) "Technical Adviser" means the Technical Adviser appointed under sub-section (1) of section 4A of the Act;

(d) "member" means a member of the Board.

3. Ex-officio Chairperson.- The Secretary to the Government of India incharge of the Department of the Central Government having administrative control of the Board shall be the ex-officio Chairperson as per clause (a) of the sub-section (2) of section 27A of the Act.

4. Ex-officio Member-Secretary.- The Technical Advisor shall be the ex-officio Member-Secretary as per clause (d) of the sub-section (2) of Section 27A of the Act.

5. Manner of nomination of other members.- (i) a senior technical officer conversant with the inspection and examination of boilers to be nominated by the Government of each State (other than Union territory) as per clause (b) of sub-section (2) of Section 27A of the Act;

(ii) Equal number of other members nominated in sub-rule (i) above, not exceeding twenty eight, shall be nominated as per clause (c) of sub-section (2) of section 27A of the Act in the following manner:-

- (a) one member to represent Department of Heavy Industry to be nominated in consultation with the Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises;
- (b) one member to represent Department of Steel to be nominated in consultation with the Ministry of Steel;
- (c) one member to represent Ministry of Petroleum and Natural Gas to be nominated in consultation with that Ministry;
- (d) one member to represent Ministry of Labour to be nominated in consultation with that Ministry;
- (e) one member to represent Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises to be nominated in consultation with that Ministry;
- (f) one member to represent Central Electricity Authority to be nominated in consultation with Ministry of Power;
- (g) one member to represent the Bureau of Indian Standards to be nominated in consultation with that Bureau;
- (h) one member to represent Union Territories to be nominated in consultation with Ministry of Home Affairs;
- (i) one member from Confederation of India Industry or Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry or The Associated Chambers of Commerce and Industry of India;

- (j) one member from Boiler Manufacturers Association;
- (k) one member from Boiler components Manufacturers Association;
- (l) four members to represent boilers and boiler components manufacturing industry;
- (m) two members to represent National Laboratories;
- (n) two members to represent Engineering Consultancy Organizations/Inspection Agencies;
- (o) four members to represent boiler user industry; and,
- (p) not more than five members to represent any other interest which, in the opinion of the Central Government, ought to be represented on the Board.

6. Term of office of nominated members. - (1) Every member nominated under rule 5 shall ordinarily hold office for a period of three years from the date of publication of the notification in the Official Gazette for constitution of the Central Boilers Board unless otherwise directed by the Central Government.

(2) A nominated member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

[F. No. 6(6)/2008-Boilers]

GOPAL KRISHNA, Jt. Secy.

### पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2008

**सा.का.नि. 214.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (हिन्दी प्रशिक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 1991 को, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, प्रशिक्षण अधिकारी हिन्दी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियम करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (हिन्दी प्रशिक्षण अधिकारी) भर्ती नियम, 2008 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

**2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा एवं अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है कि ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।



## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
प्रशिक्षण अधिकारी हिन्दी	1* (2008) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	6500-200- 10500 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं। <b>टिप्पण 1:</b> केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। <b>टिप्पण 2:</b> आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित  
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों  
के लिए विहित आयु और शैक्षिक  
अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी  
या नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो

(8)	(9)	(10)
अनिवार्य : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ हिन्दी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ अंग्रेजी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री स्तर पर अंग्रेजी और हिन्दी विषयों के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी माध्यम में और डिग्री स्तर पर अंग्रेजी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ; या	नहीं	प्रोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त अभ्यर्थियों के लिए 2 वर्ष।

(8)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से और डिग्री स्तर पर हिन्दी विषय के साथ किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

हिन्दी में शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी में अभूता हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव जिसमें तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य को अधिमान दिया जाएगा ; या

हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव ।

**टिप्पण 1:** अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

**टिप्पण 2:** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल की जा सकती है/हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है;

**पदों की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में ये श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर संयुक्त पद्धति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

( प्रतिनियुक्ति प्लस प्रोन्नति )

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के ऐसे अधिकारी-

(क) (i) जो मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या  
(ii) जिन्होंने 5500-9000/- रु. के या मूल संवर्ग/विभाग में समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद दी गई श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 5000-8000/- रु. के या मूल संवर्ग/प्रतिनियुक्ति में समतुल्य वेतनमान में नियुक्ति के बाद दी गई श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तम्भ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

1. बाहरी व्यक्तियों के साथ 5000-8000/- रु. वेतनमान वाले ऐसे विभागीय हिन्दी अनुवादक के संबंध में भी विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में छः वर्ष नियमित सेवा कर ली है और इस पद पर नियुक्ति के लिए उसका चयन होने की दशा में, यह पद प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख के अनुसार 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने के लिए परिस्थितियां करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श

(13)

(14)

पुष्टि के लिए समूह ख विभागीय प्रोन्नति समिति :

पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक है।

1. निदेशक, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - अध्यक्ष
2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य
3. आचार्य/सह प्रोफेसर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, देहरादून - सदस्य
4. निदेशक वन स्थापना/अवर सचिव वन स्थापना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय - सदस्य

[फा. सं. 9-2/99-एफ ई हिन्दी प्रशिक्षण अधिकारी]

मालती रावत, अवर सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi, the 2nd December, 2008

**G.S.R. 214.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indira Gandhi National Forest Academy, ( Training Officer Hindi) Recruitment Rules, 1991, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Training Officer Hindi in the Indira Gandhi National Forest Academy under the Ministry of Environment and Forests, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Indira Gandhi National Forest Academy, (Training Officer Hindi) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and scale of pay.**—The number of the posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government, from time to time in this regard.

4760 GI/08-4

## SCHEDULE

Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Training Officer Hindi	*1 (2008) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 6500-200-10,500	Not applicable	No	Not exceeding 30 years. <b>Note 1 :</b> Relaxable for Government servants upto 5 years in accordand with the instructions or orders issued by the Central Government.  <b>Note 2 :</b> The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and other educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
(8)			(9)		(10)	
<b>Essential :</b> Master's Degree of a recognized University or equivalent in Hindi with English as a subject at the degree level.  OR Master's Degree of a recognized University or equivalent in English with Hindi as a subject at the degree level.  OR Master's Degree of a recognized University or equivalent in any subject with Hindi and English or as a subject at the Degree level.			No		Two years for direct recruits and promotees.	

(8)

OR

Master's Degree of a recognized university or equivalent in any subject with Hindi medium and English as a subject at the degree level.

OR

Master's Degree of a recognized university or equivalent in any subject with English medium and Hindi as a subject at the degree level.

Five years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of Technical or Scientific Literature.

OR

Five year's experience of teaching, research writing or journalism in Hindi.

**Note 1 :** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates otherwise well qualified.

**Note 2 :** The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

**Method of recruitment:** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

(12)

Composite method Deputation plus promotion failing which by Direct Recruitment.

**(Deputation Plus Promotion)**

Officers of the Central/State Government/Union Territories :

- (a) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent cadre/department; or
- (ii) with three year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5500-9000 or equivalent in the parent cadre department; or
- (iii) With six year's service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the scale of pay of Rs. 5000-8000 OR equivalent in the parent cadre/deputation; and
- (b) Possessing the educational qualification and experience laid down for Direct Recruits under column (8).

I. The departmental Hindi Translator in the scale of Rs. 5000-8000 with 6 years regular service in the grade shall also be considered alongwith outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the post shall be deemed to have been filled by promotion.

(12)

Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Govt. shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

**Group 'B' DPC for confirmation :**

- |  |            |
|--|------------|
| 1. Director, Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun                       | — Chairman |
| 2. Joint Director (Admn.), Indira Gandhi National Forest Academy, Dehradun         | — Member   |
| 3. Professor/Assistant Professor, Indira Gandhi National Forest Academy,           | — Member   |
| 4. Director (FE)/Under Secretary (Forest Establishment) M/o Environment and Forest | — Member   |

Consultation with Union Public Service Commission is necessary for appointment to the post on each occasion.

[F. No. 9-2/99-FE (Training Officer Hindi)]  
MALTI RAWAT, Under Secy.

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

(खान सुरक्षा महानिदेशालय)

धनबाद, 25 नवम्बर, 2008

**सा.का.नि. 215.**—कोयला खान विनियम, 1957 के विनियम 123(6)(b)(ii) एवं धातु खान विनियम 124(6)(b)(ii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एम. एम. शर्मा, मुख्य खान निरीक्षक, पदनामित खान सुरक्षा महानिदेशक यह घोषणा करता हूँ कि दिनांक 31-12-2008 से निम्नवत सामग्रियों का इस्तेमाल भूमिगत कोयला खान एवं धातु खान में तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इन्हें मेरे द्वारा सामान्य या विशेष लिखित आदेश के तहत अनुमोदित नहीं किया गया हो।

1. डस्ट संप्रेषण/प्रिवेंशन सिस्टम (ड्रीलिंग एवं बोरिंग मशीन में)

[सं. 16(38)79-सामान्य/6095]

एम. एम. शर्मा, खान सुरक्षा महानिदेशक

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****(Directorate General of Mines Safety)**

Dhanbad, the 25th November, 2008

**G. S. R. 215.**— In exercise of the powers conferred on me under sub-regulation 123(6)(b)(ii) of Coal Mines Regulation, 1957 and regulation 124(6)(b)(ii) of Metalliferous Mines Regulation 1961, I, M. M. Sharma, Chief Inspector of Mines also designated as Director General of Mines Safety hereby declare 31st December, 2008 as date from which following item will not be used in Coal Mines and Metalliferous Mines unless the same has been approved by me by a general or special order in writing.

1. Dust Suppression/Prevention device in drilling and boring equipment.

[No. 16(38)79 Genl. -6095]

M. M. SHARMA, Director General of Mines Safety